

प्रेस नोट थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर



सराहनीय कार्य दिनांक 03.07.2022 को थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर

दिनांक 3/07/2022 को थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर मे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं क्षेत्राधिकारी लम्भुआ महोदय के निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक लम्भुआ श्री अशोक कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर खास की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह मय व0उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी, हे0का0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह, का0 सौरभ सिंह, का0 दीपक कुमार व उ0नि0 नरेन्द्र कुमार, का0 नमित कुमार , का0 रविपाल मय स्वाट टीम उ0नि0 श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, हे0का0 समरजीत यादव, हे0का0 अनुराग सिंह, का0 विकास सिंह, का 0तेजभान सिंह व का0 शैलेश राजभर की संयुक्त टीम के द्वारा मु0अ0सं0 223/2022 धारा

302/120बी/201/452 भा0द0वि0 स्टेशन गली करबा लम्भुआ में घर में घुसकर साजिश के तहत मा बेटी की गला रेतकर हत्या करने के मामले में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. मो0 इरफान उर्फ सोनू पुत्र इफतेखार अहमद निवासी ग्राम मुडेरा थाना हंसबर जनपद अम्बेडकर नगर 2.. मो0 शादान उर्फ नादान पुत्र इफतेकार अहमद नि0 मुडेरा थाना हसवर जिला अम्बेडकरनगर 3. मो0 शहबाज पुत्र सगीर सिद्दीकी नि0 ग्राम हथौडा थाना लम्भुआ जिला सुलतानपुर को भदैया पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया चूंकि मुख्य अभियुक्त मो0 इरफान उर्फ सोनू द्वारा इस अभियोग की घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू, लोहे की राड व खुद पहने हुए खूनालूद कपड़े आदि बरामद कराने का दौरान गिरफ्तारी आश्वासन दिये जाने पर प्रभारी निरीक्षक महोदय उसे साथ लेकर उसके बताये रास्ते पर चल दिये कि जगन्नाथपुर रेलवे क्रासिंग पास झाडी के पीछे अभियुक्त मो0 इरफान द्वारा झाडी मे छिपा रखा एक अदद तमंचा 315 बोर से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया जिससे प्रभारी निरीक्षक लम्भुआ महोदय बाल बाल बचे और वह गोली उनके पीछे खड़े हे0का0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह के बाये हाथ को छूकर निकल गयी तब पुलिस पार्टी द्वारा अपने आप को बचाते हुए अपनी आत्मरक्षा में अभियुक्त मो0 इरफान पर फायर किया गया जिससे गोली के पैर में लगी जिसे जिला अस्पताल सुलतानपुर में इलाज हेतु व हे0का0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह को भी इलाज हेतु जिला अस्पताल सुलतानपुर में भर्ती कराया गया । अभियुक्त मो0 इरफान के इस कृत्य से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने तथा अवैध असलहा रखने के जुर्म में थाना लम्भुआ पर मु0अ0सं0 225/2022 धारा 307 भा0द0वि0 व 226/2022 धारा 3/25 ए एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा अभियुक्तगण के पास से सर्वमोहर आलाकत्ल लोहे की राड, एक प्लास्टिक के डिब्बे में एक अदद तमंचा 315 बोर जिसमें खोखा कारतूस फंसा हुआ व एक अदद जिन्दा कारतूस 315बोर , एक अदद चाकू, एक पोटली में घटना में प्रयुक्त अभियुक्त के कपड़े, एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में मृतका शकुन्तला का एक अदद कीपैड मोबाइल फोन BENCO कम्पनी, एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में मुठभेड़ के घटनास्थल से प्राप्त खूनालूद मिट्टी, सादी मिट्टी, सादा काटन व रक्त युक्त काटन समस्त माल सील सर्वमोहर मय नमूना मोहर बरामद किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अपराधी – 1. मो0 इरफान उर्फ सोनू पुत्र इफतेखार अहमद निवासी ग्राम मुडेरा थाना हंसबर जनपद अम्बेडकर नगर

2.. मो0 शादान उर्फ नादान पुत्र इफतेकार अहमद नि0 मुडेरा थाना हसवर जिला अम्बेडकरनगर

3. मो0 शहबाज पुत्र सगीर सिद्दीकी नि0 ग्राम हथौडा थाना लम्भुआ जिला सुलतानपुर

बरामद शुदा माल – अभियुक्तगण के पास से सर्वमोहर आलाकत्ल लोहे की राड, एक प्लास्टिक के डिब्बे में एक अदद तमंचा 315 बोर जिसमें खोखा कारतूस फंसा हुआ व एक अदद जिन्दा कारतूस 315बोर , एक अदद चाकू, एक पोटली में घटना में प्रयुक्त अभियुक्त के कपड़े, एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में मृतका शकुन्तला का एक अदद कीपैड मोबाइल फोन BENCO कम्पनी, एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में मुठभेड़ के घटनास्थल से प्राप्त खूनालूद मिट्टी, सादी मिट्टी, सादा काटन व रक्त युक्त काटन समस्त माल सील सर्वमोहर मय नमूना मोहर बरामद किया गया।

गिरफ्तारी करने वाले का स्थान----- भैदया पुल व जगन्नाथपुर रेलवे क्रासिंग के पास झाडी में बहद ग्राम जगन्नाथपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

श्री अशोक कुमार सिंह
व0उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी,
हे0का0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह,
का0 सौरभ सिंह,
का0 दीपक कुमार

स्वाट टीम

उ0नि0 श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह,
हे0का0 समरजीत यादव,
हे0का0 अनुराग सिंह,
का0 विकास सिंह,
का 0तेजभान सिंह व
का0 शैलेश राजभर